

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2016—भाद्र 29, शक 1938

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. एफ-22-05-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 मार्च 2014 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, डायल 100 योजना में प्रयुक्त इमर्जेन्सी वाहनों (First Response Vehicles) में टॉप माउन्टेड मल्टीपल रनिंग लाईट्स (नीली एवं लाल) प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.